



## कक्षा 12 के नामांकन के लिए अतिरिक्त भाषा या बोली के तौर पर अंग्रेजी (English as an Additional Language or Dialect - EAL/D) की पात्रता प्रक्रिया

EAL/D ATAR कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जो अतिरिक्त भाषा या बोली के तौर पर अंग्रेजी बोलते हैं, और जिनका सामान्य ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी (Standard Australian English - SAE) का प्रयोग सीमित है।

कक्षा 12 का विद्यार्थी केवल School Curriculum and Standards Authority (एथॉरिटी) द्वारा स्वीकृत पात्रता के साथ ही EAL/D ATAR कोर्स में नामांकन करा सकता है। विद्यार्थी के लिए नामांकन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन पात्रता आवेदन पूरा किया जाना चाहिए और यह एथॉरिटी को, किन्हीं आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ प्रकाशित तिथि तक जमा कराया जाना चाहिए। आवेदनों को जमा कराने की अंतिम तिथि एथॉरिटी की वेबसाइट के EAL/D पेज पर मौजूद है: <https://senior-secondary.scsa.wa.edu.au/syllabus-and-support-materials/english/english-as-an-additional-language-or-dialect>। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए, विद्यार्थी को घर या स्कूल में एक कंप्यूटर का प्रयोग करने की ज़रूरत होगी। यदि आपके कोई सवाल हैं, तो अपनी संतान के EAL/D टीचर या स्कूल के प्रबंधकीय कर्मचारियों को आपकी मदद करने के लिए कहें।

### ऑनलाइन EAL/D पात्रता प्रक्रिया में पांच चरण

- चरण 1: स्टूडेंट पोर्टल में लॉग इन करें: <https://studentportal.scsa.wa.edu.au>
- चरण 2: EAL/D पात्रता आवेदन शुरू करें
- चरण 3: सहायक दस्तावेज अपलोड करें
- चरण 4: EAL/D पात्रता आवेदन जमा करें
- चरण 5: पात्रता आवेदन प्रक्रिया के परिणाम के लिए स्टूडेंट पोर्टल की जांच करें

### आवश्यक जानकारी

विद्यार्थी को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने की ज़रूरत होगी:

- उस देश का नाम जहाँ जन्म हुआ
- ऑस्ट्रेलिया में आगमन करने की दिनांक
- उस देश का नाम जहाँ जन्म हुआ - माता और पिता (या देखरेखकर्ता)
- उन देशों के नाम जहाँ पहले रहे हैं
- राष्ट्रियता
- घर में बोली जाने वाली भाषाएँ
- किंडरगार्टन से लेकर हर साल स्कूली शिक्षा के लिए आपने जिस स्कूल में भाग लिया, उस स्कूल के विवरण:

## सहायक दस्तावेज़

विद्यार्थी को निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रदान करने की ज़रूरत होगी

- पासपोर्ट में पहचान वाला पृष्ठ
- एंट्री स्टेम्प की दिनांक या वीज़ा या
- इंटरनेशनल मूवमेंट रिकॉर्ड
- स्कूल की रिपोर्ट/टै

विद्यार्थियों के लिए यह ज़रूरी होगा कि वे .pdf, .jpg, .jpeg or .png फाइलों के फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण पर सहायक दस्तावेज़ सेव करें, हर फाइल का अधिकतम साइज 4MB होना चाहिए। Word दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

अधिक जानकारी या समर्थन के लिए, कृपया अपनी संतान के EAL/D टीचर या स्कूल के प्रबंधकीय कर्मचारियों या Louise Dodman, Principal Consultant – EAL/D से [louise.dodman@scsa.wa.edu.au](mailto:louise.dodman@scsa.wa.edu.au) या 9273 6785 पर संपर्क करें।